


facts about e-cigarettes



E-cigarettes are not safe for you or your baby

E-liquids are poisonous when swallowed or left on the skin


Keep e-liquids and e-cigarettes away from babies and children

E-cigarette aerosol is NOT "harmless water vapor"

Quitting tobacco is one of the most important things you can do to protect your health and your family's health.

Ask your health care provider for help or call 1-800-QUIT-NOW


los cigarrillos electrónicos



Dejar el tabaco es una de las mejores cosas que puedes hacer para proteger tu salud y la de tu familia.

Pídele ayuda a tu proveedor médico o llama al 1-855-DEJELO-YA

关于电子烟的真相



电子烟对您或您的宝宝都是不安全的

吞咽电子烟油或将其留在皮肤上均有毒



请让电子烟油和电子烟远离婴幼儿

电子烟悬浮微粒并非“无害水蒸气”

戒烟是您可以保护自己和家人健康的最重要行为之一。

请向您的医疗保健提供者寻求帮助，或致电
1-800-QUIT-NOW (1-800-838-8917)


des informations factuelles sur la cigarette électronique



Arrêter de fumer est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger votre santé et celle de votre famille.

Demandez de l'aide à votre prestataire de soins de santé
ou appelez le 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)


ई-सगिरेट के बारे में तथ्य



तमबाक छोड़ना उन सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कर सकते हैं।

अपने हैल्थ केयर प्रोवाइडर से सहायता करने के लिए कहें या
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) पर कॉल करें


tqhov tseeb ntawm cov luam yeeb hluav taws xob



**Kev txiav haus luam yeeb yog ib ntawm feem tseem ceeb tshaj
plaws uas koj muaj peev xwm tiv thaiv kev noj qab haus huv kom
zoo rau koj thiab koj tsev neeg.**

**Nug koj tus kws kho mob thov kev pab los sis hu rau
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)**


факты факты об электронных сигаретах



Отказ от табакокурения является одним из самых важных действий, которое вы можете принять, чтобы защитить свое здоровье и здоровье вашей семьи.

Обратитесь за помощью к своему лечащему врачу или позвоните по номеру 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)

sự thật về thuốc lá điện tử



Bỏ thuốc lá là một trong những điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình.

Hỏi bác sĩ chăm sóc sức khỏe của quý vị để được trợ giúp hoặc gọi số
1-800-QUIT-NOW (1-800-778-8440)